



# GANESHA ECOSPHERE LIMITED

GESL/2021-22

February 7, 2022

To,  
The BSE Limited,  
Corporate Relationship Department,  
1st Floor, New Trading Wing,  
Rotunda Building,  
PJ Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai-400 001.  
Fax No.: 022-22723121, 22722037  
Scrip Code: 514167

To,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza,  
Bandra- Kurla Complex,  
Bandra (East),  
Mumbai-400051.  
Tel No.: 022-26598100-8114/ 66418100  
Fax No. : 022-26598237/38  
Scrip Symbol: GANECOS

## Sub.: Newspaper Clippings of Unaudited Financial Results

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby submitting the copy of newspaper clippings of **Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2021**, published in an English daily newspaper (Business Standard) and in a Hindi daily newspaper (Business Standard) on **February 7, 2022**.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you

Yours faithfully,  
**For Ganesha Ecosphere Limited**

**(Bharat Kumar Sajnani)**  
**Company Secretary-cum-Compliance Officer**

Encl.: As above



**GILADA FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED**  
 CIN: L65910KA1994PLC015981  
 Regd. Office: #105 R.R. Takt, 37 Bhoopasandra Main Road, Bangalore- 560094 Ph:0904020000(30 Lines)  
 Fax: 080-40620009; E-mail: mdg@giladafinance.com; Website: www.giladafinance.com

**NOTICE**  
 NOTICE is hereby given under Regulation 29(i) (a) read with regulation 47(i) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 14th day of February, 2022, at 11:30 AM through Video Conferencing inter-alia to consider the proposal for subdivision/split of Equity Shares of Face Value of Rs. 10 each of the Company. The Board will also consider the proposal for issue of Bonus Shares and to approve the unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December 2021 and other items with the permission of Chair. This notice is also available on the website of the Company at www.giladafinance.com and on the website of BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Gilada Finance & Investments Ltd  
 Sd/- (Rajgopal Gilada)  
 Managing Director (DIN: 00307829)

Place : Bangalore  
 Date : 05.02.2022

**SBI**  
**State Bank of India**  
 (Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
 Shares & Bonds Department, Corporate Centre, 14th floor State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021  
 Website: https://bank.sbi Email: investor.complaints@sbi.co.in  
 Phone No.: 022-22740841-8, 22742403, 22741474

**KIND ATTENTION: PHYSICAL SHAREHOLDERS**  
**UPDATING E-MAIL, PAN, KYC AND NOMINATION DETAILS WITH RTA AND CONVERSION OF PHYSICAL SHARE HOLDING TO DEMAT FORM**

**UPDATE E-MAIL, PAN, KYC AND NOMINATION DETAILS**  
 We inform our esteemed shareholders holding shares in physical form that as per latest guidelines issued by SEBI pertaining to physical shareholding, RTAs shall obtain documents / details of PAN, KYC details and Nomination, wherever, the same is not available in the folio, while processing any service requests or complaint from the holder(s) / claimant(s). The folios wherein any one of the cited document / details are not available on or after April 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

Therefore, it is requested to update PAN, KYC including E-MAIL, CONTACT NO., BANK ACCOUNT & NOMINATION details by submitting requisite form to Bank's Registrar & Transfer Agent (RTA). Forms can be downloaded from our website from path(URL) as under:  
<https://bank.sbi/web/investor-relations/share-holder-bond-holder-information>

Shareholders holding shares in demat form are requested to update the above details with their respective Depository Participant to ensure ease of communication and seamless remittances.

**DEMATERIALIZED (DEMAT) PHYSICAL SHARES TO AVOID RISK**  
 We also request physical shareholders to convert your physical shares into dematerialized (demat) form immediately to avoid risks. Most importantly, the investment cannot be monetized by physical shareholders since SEBI has stipulated that request for effecting transfer/sale of shares shall not be processed unless the shares are held in demat form with a Depository (NSDL / CDSL), i.e. shares cannot be sold / transferred in physical form by the shareholders.

**CLAIM UNCLAIMED DIVIDEND**  
 Dividends declared by the Bank and erstwhile Associate Banks of SBI, up to Financial Year 2013 - 14 and lying unpaid / unclaimed has been transferred to IEPF. Please claim your unclaimed dividend if any, for subsequent years (Financial Year 2014 - 15 onwards) immediately by contacting Bank's RTA.

**ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF RTA**  
 M/s. Alankit Assignments Limited, Unit: State Bank of India, 205 - 208 Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, e-mail: sbi.igr@alankit.com, Contact No.: 7290071335

For State Bank of India  
 Sd/-  
 Sham K.  
 Assistant General Manager  
 (Compliance & Company Secretary)  
 Place: Mumbai  
 Date: 07.02.2022

**FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
 (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF  
**KAVERI GAS POWER PRIVATE LIMITED**

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	<b>Kaveri Gas Power Private Limited</b>
2. Date of incorporation of corporate debtor	<b>29.06.2000</b>
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act, 1956, Registrar of Companies - Chennai, Tamilnadu
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U40101TN2000PTC045283
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	No. 3, Ranganathan Gardens, Anna Nagar, Chennai, Tamilnadu 600040 IN
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	4th February 2022
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	3rd August 2022 (180 days from the date of admission u/s 12(1) of IBC)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: L. BHADRI Regn.No.:IBBI/PA-001/P-02059/2020-2021/13245
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	No.8/12 (Old 16/12), Kesava Perumal Sannadhi Street, Mylapore, Chennai-600004, Registered Email ID: l.bhadri@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	MMPDA Towers 2nd Floor, No.184 (Old 214), Royapettah High Road, Royapettah, CHENNAI-600014. Correspondence Email ID: l.bhadri.rp.kgp@gmail.com
11. Last date for submission of claims	18th February 2022
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) - NIL
13. Names of Insolvency Professionals Identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NIL
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: Furnished below: <a href="http://kavenipower.com/cirp">http://kavenipower.com/cirp</a> Physical Address: as given in Column 10.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Division Bench, Chennai has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of **M/s. KAVERI GAS POWER PRIVATE LIMITED** on 4th February 2022 vide its Order No. CP (IB) 82/CH/2021.

The creditors of **M/s. KAVERI GAS POWER PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **18th February 2022** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

The submission of proof of claims is to be made in accordance with Chapter IV (Regulations 7, 8 & 9) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim is to be submitted by way of the following specified forms along with Affidavit: Form B - Claim by Operational Creditors; Form C - Claim by Financial Creditors; Form D - Claim by a workman or an employee; Form E - Claim by Authorised Representative of Workmen or Employees; Form F - Claim by Creditors other than the Financial Creditors and Operational Creditors.

You may download the form from the website of IBBI (<https://ibbi.gov.in/home/downloads>). Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd/-  
**Name and Signature of the Interim Resolution Professional**  
 L. BHADRI, B.Com., F.C.A.  
 Date: 07.02.2022  
 Place: Chennai, Tamilnadu  
 IBBI/PA-001/P-02059/2020-2021/13245

**Super Spinning Mills Limited**  
 REGD. OFFICE: "ELGI TOWERS", P.B. NO. 7113, 737-D, GREEN FIELDS, PULIANKAL ROAD, COIMBATORE - 641 045.  
 Telephone No.: 0422-2311711 Fax No.: 0422-2311611 E-mail id: investors@ssh.saralegi.com Website: www.superspinning.com  
 CIN: L17111TZ1962PLC001200

**Extract of unaudited Financial Results for the Nine months ended December 31, 2021 under IND AS**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended December 31, 2021 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2021 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2020 (Unaudited)	Nine months ended December 31, 2021 (Unaudited)	Nine months ended December 31, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (audited)
1	Total Income from Operations	2,748.77	2,574.59	1,578.77	6,965.18	3,247.70	5,430.76
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	295.12	84.78	(241.91)	330.85	(963.09)	(254.46)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items and profit/loss from discontinued operations)	674.57	188.37	125.88	818.09	(971.73)	(269.25)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items and profit/loss from discontinued operations)	110.65	(264.37)	125.88	(198.58)	(971.73)	(789.16)
5	Other comprehensive income (net of tax)	-	-	-	-	-	(173.47)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	110.65	(264.37)	125.88	(198.58)	(971.73)	(962.63)
7	Equity Share Capital (face value of Rs.1 per share)	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	NA	NA	9,814.10
9	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
a.	Basic	0.20	(0.48)	0.23	(0.36)	(1.77)	(1.43)
b.	Diluted	0.20	(0.48)	0.23	(0.36)	(1.77)	(1.43)

**Notes :**  
 a. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 05th February, 2022 and have been subjected to limited review by the Auditors.  
 b. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.superspinning.com

For Super Spinning Mills Limited  
**Sumanth Ramamurthi**  
 Chairman and Managing Director  
 DIN - 0002773  
 Place : Coimbatore  
 Date : February 5, 2022

**SPML INFRA LIMITED**  
 CIN: L40106DL1981PLC012228  
 Registered Office: F 27/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020  
 Tel.: 011-26387091; E-mail: cs@spml.co.in; Website: www.spml.co.in

**Corrigendum to Notice of the Extra Ordinary General Meeting**

SPML Infra Limited had issued Notice dated 20th January, 2022 for convening the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Shareholders of the Company, scheduled to be held on Monday, the 21st February, 2022 through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). The EGM Notice has already been circulated to all the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.

In the explanatory statement to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice, for SPML India Ltd. Equity Share on Conversion of CCPS was incorrectly mentioned as "939,847" instead of "864,660". Kindly note that it should be read as 864,660 for all relevant purposes. Further, to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice for last column heading **Pre-preferential Shareholding** shall be read as **post-preferential Shareholding**.

In the explanatory statement to Item No. 4 after point "v", the following point "w" shall be inserted:  
**Pledge of CCPS:** The CCPS to be issued and allotted to the Promoters by conversion of their existing Unsecured Loan shall be pledged with the Lenders of the Company as per the terms of the Debt Resolution Plan in principle agreed by the lenders of the Company.

The Corrigendum to the EGM Notice shall form integral part of Notice dated 20th January, 2022, which has already been circulated to the Shareholders and Stock Exchanges of the Company. The Corrigendum will be available on the website of the Company ([www.spml.co.in](http://www.spml.co.in)) besides being communicated to NSE and BSE where the shares of the Company are listed.

For SPML Infra Limited  
 Sd/-  
**Swati Agarwal**  
 (Company Secretary)  
 Date: 05.02.2022  
 Place: Kolkata

**PRIME LAND FOR SALE**  
 (Sale by way of E-Auction)

**COMPANY NAME : M/S.VEESONS ENERGY SYSTEMS PVT LTD (UNDER LIQUIDATION)**  
**PLOT SIZE: 13.64 Acres (Facing Highway)**  
**LOCATION: SIDCO INDUSTRIAL ESTATE, THUVAKUDI, TRICHY.**

**Provides High Branding and Visibility from Highway**  
**Interested Buyers to furnish enquiries to the below contact details on or before 19th Feb 2022.**

For more Details Contact:  
**R.Raghavendran**  
 Liquidator for M/s. Veasons Energy Systems Pvt Ltd  
 ☎ : 0422-2492454 ✉ ragavcarp@gmail.com

**GANESHA ECOSPHERE LIMITED**  
 CIN: L51109UP1987PLC009090  
 Regd. Office : Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P.)  
 E-mail : secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com  
 Tel. No. 0512-2555505-06, +91 9198708383, Fax No. 0512-2555293

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021**

Sl. No.	Particulars	(Rs. in Lakh)		
		Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	28,802.28	73,429.46	23,453.67
2.	Net Profit for the period before Exceptional Item & Tax (refer note 2)	2,270.97	5,767.03	2,635.63
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Item) (refer note 2)	2,270.97	3,253.81	2,635.63
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Item) (refer note 2)	1,642.72	1,784.84	2,010.01
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,650.74	1,808.88	2,012.96
6.	Equity Share Capital	2,182.94	2,182.94	2,182.94
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
	- Basic (after exceptional item):	7.53*	8.18*	9.21*
	- Basic (before exceptional item):	7.53*	19.69*	9.21*
	- Diluted (after exceptional item):	7.53*	8.18*	9.21*
	- Diluted (before exceptional item):	7.53*	19.69*	9.21*
	*Not annualised			

**Notes:**  
 1. Additional Information on standalone financial results is as follows: (Rs. in Lakh)

Particulars	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)
Revenue from Operations	28,825.38	73,497.46	23,453.67
Profit before Exceptional Item & Tax	2,455.80	6,442.32	2,687.90
Profit after Tax	1,827.56	2,460.14	2,062.28

2. The Group has recognized net impact of Rs. 2,513.22 Lakh on account of loss due to fire as 'Exceptional Item' in this consolidated financial results.  
 3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.ganeshaecosphere.com.

For GANESHA ECOSPHERE LIMITED  
 Sd/-  
**(Shyam Sunder Sharma)**  
 Chairman  
 Place: Kanpur  
 Date: 05.02.2022

**PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED**  
 CIN: U45201KA2008PTC046784  
 Registered Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bengaluru - 560025  
 Tel: +91 80 25591080, Fax: +91 80 25591945  
 Email: secretarial@prestigeconstructions.com; Website: www.prestigeconstructions.com

**Extracts from the Un-audited Financial Results of Prestige Projects Private Limited for the quarter and nine months ended December 31, 2021:**

Sl. No.	Particulars	(Rs. In Million)			
		Quarter Ended 31.12.2021 (un-audited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (un-audited)	Quarter Ended 31.12.2020 (un-audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	2.28	2.30	-	0.13
2	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(40.65)	(43.08)	(1.32)	(7.40)
3	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(29.61)	(32.04)	(1.32)	(7.40)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(29.61)	(32.04)	(1.32)	(7.40)
5	Equity Share Capital	56.60	56.60	33.96	33.96
6	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic : Diluted:	(6.79) (6.79)	(7.35) (7.35)	(0.39) (0.39)	(2.18) (2.18)

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are available on the Company's website www.prestigeconstructions.com and can also be viewed on the stock exchange website www.nseindia.com  
 2. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.

By order of the Board of  
 Prestige Projects Private Limited  
 Sd/-  
 Badrunissa Irfan  
 Director  
 DIN: 01191458  
 Place: Bengaluru  
 Date: February 5, 2022

**navi mutual fund**  
**NAVI AMC LIMITED**  
 (FORMERLY KNOWN AS ESSEL FINANCE AMC LIMITED)  
 Registered Office: Peerless Mansion, 1, Chowringhee Square, Kolkata-700069  
 Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no. 1800 103 8999,  
 Website: www.navimutualfund.com, Email: mf@navi.com  
 CIN: U65990WB2009PLC134537

**Notice cum Addendum No. 37 of 2021-22**

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF DESIGNATED SCHEMES OF NAVI MUTUAL FUND.

Investors are requested to take note that Ms. Surbhi Sharma and Mr. Aditya Mulki have been appointed as Fund Manager and Key Personnel of Navi AMC Limited ("the AMC")

Ms. Surbhi Sharma has been appointed as a Fund Manager of Navi Liquid Fund (An open ended liquid scheme), Navi Regular Savings Fund (An open ended hybrid scheme investing predominantly in debt instruments), Fund and Navi Equity Hybrid Fund (An Open Ended Hybrid Scheme investing predominantly in equity and equity related instruments)-for Debt with effect from 01st February 2022.

Mr. Aditya Mulki has been appointed as a Fund Manager of Navi Large & Mid Cap Fund (An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks), Navi Equity Hybrid Fund (An Open Ended Hybrid Scheme investing predominantly in equity and equity related instruments) for Equity and Navi Flexi Cap Fund (An open ended equity scheme investing across large, mid & small cap stocks) with effect from 01st February 2022.

Mr. Hari Shyamsunder will continue to be one of the Fund Managers of the aforesaid Schemes.

Accordingly, the details of Ms. Sharma and Mr. Mulki shall be added under sub-section 'Who manages the Scheme?' under section 'II' 'Information about the Scheme' in the SID of Navi Liquid Fund, Navi Regular Savings Fund Navi Large & Mid Cap Fund, Navi Equity Hybrid Fund and Navi Flexi Cap Fund as following for their respective schemes:

Name, Designation	Age & Educational Qualification	Brief Experience	Other Scheme(s) managed by the Fund Manager
Name: Ms. Surbhi Sharma Designation: Co-Fund Manager	Age: 30 Years Qualification: PGDM Finance & Company Secretary (ICSI)	She is a Company Secretary with Six years of post qualification experience in the Financial Services sector. Prior to joining Navi, she has worked with DCB Bank Ltd.	Fund Manager of - Navi Liquid Fund Navi Regular Savings Fund Navi Equity Hybrid Fund.
Name- Mr. Aditya Mulki Designation- Co-Fund Manager	Age- 32 Years Qualification- CFA Charterholder Bachelors of Commerce from Mumbai University.	Prior to joining Navi Mutual Funds Mr. Mulki has worked for close to 6 years at Quantum Advisors Ltd as an Equity Research Analyst, covering the consumer staples, consumer discretionary, building materials and media sectors.	Fund Manager of - Navi Large & Mid Cap Fund. Navi Equity Hybrid Fund. Navi Flexi Cap Fund.

The list of Schemes under heading "Other Scheme(s) managed by the Fund Manager" shall be modified as applicable in the respective SIDs.

Necessary/incidental changes, if any, shall be made in the SID and KIM of the aforementioned Schemes of Navi Mutual Fund. The SID and KIM of the aforementioned Schemes will stand modified to the extent mentioned above. This Addendum forms an integral part of the SID and KIM of the aforementioned Schemes. All other terms and conditions of the aforementioned Schemes remain unchanged.

For Navi AMC Limited  
 (Formerly Essel Finance AMC Limited)  
 (Investment Manager to Navi Mutual Fund)  
 (Formerly Essel Mutual Fund)  
 Sd/-  
 Authorized Signatory  
 Place: Bengaluru  
 Date: 05 February, 2022

**MUTUAL FUNDS INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

**Elgi Rubber Company Limited**  
 Regd. Office: S F No. 164/2, Pollachi Road, SIDCO Industrial Estate, Kurichi, Coimbatore - 641021, Tamil Nadu  
 Telephone No.: 0422-4321000 Fax No.: 0422-2322222 E-mail Id: info@in.elgirubber.com Website: www.elgirubber.com  
 CIN: L25119TZ2006PLC013144

**Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021**

Sl. No.	Particulars	(Rs.in Lakhs, except EPS)					
		Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	
		Dec 31, 2021 (unaudited)	Sep 30, 2021 (unaudited)	Dec 31, 2020 (unaudited)	Dec 31, 2021 (unaudited)	Dec 31, 2020 (unaudited)	March 31, 2021 (audited)
1	Total Income from Operations	10,804.54	9,827.25	10,084.99	28,848.23	26,063.19	35,754.76
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	267.33	(340.37)	1,061.04	(475.56)	223.38	200.29
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	(547.91)	(340.37)	1,174.61	(1,290.80)	398.23	318.08
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(547.22)	(479.50)	1,160.66	(1,460.80)	203.53	107.92
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(546.16)	(478.45)	1,167.97	(1,457.63)	225.49	112.14
6	Paid up equity share capital (face value of Re.1/- each)	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,822.75
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	a. Basic (in Rs.)	(1.09)	(0.96)	2.32	(2.92)	0.41	0.22
	b. Diluted (in Rs.)	(1.09)	(0.96)	2.32	(2.92)	0.41	0.22

Key numbers of standalone financial results

Sl. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	
		Dec 31, 2021 (unaudited)	Sep 30, 2021 (unaudited)	Dec 31, 2020 (unaudited)	Dec 31, 2021 (unaudited)	Dec 31, 2020 (unaudited)	March 31, 2021 (audited)
1	Total Income from Operations	6,550.13	5,032.43	4,667.61	15,018.60	12,069.28	16,946.49
2	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	874.43	313.47	726.00	1,458.03	1,469.69	1,187.98
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	875.32	177.95	719.44	1,291.30	1,294.29	1,003.69
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	876.38	179.00	726.75	1,294.47	1,316.25	1,007.91

**Notes :**  
 1. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaud



